

## प्रेस नोट दिनांक – 20.03.2021

इटावा पुलिस द्वारा अन्तरर्जनपदीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 05 अभियुक्तों को चोरी की हुयी 07 मोटरसाइकिल व अवैध असलाह सहित गिरफ्तार किया गया ।

आगामी त्यौहारों एवं त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव-2021 को सकुशल एवं शान्तिपूर्ण संपन्न कराने तथा जनपद में अपराध एवं आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर के निर्देशानुसार एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अन्तरर्जनपदीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 05 अभियुक्तों को चोरी की हुयी 07 मोटरसाइकिल व अवैध असलाह सहित गिरफ्तार किया गया ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19/20.03.2021 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा बलदेव चौराहा पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग कर रहे थे इसी दौरान मुखबिर द्वारा पुलिस टीम को सूचना दी गयी कि कुछ व्यक्ति मोटरसाइकिलों से नीलकंठ मंदिर से भोलन सैय्यद को जाने वाले मार्ग पर बरगद के पेड के पास खडे है जोकि संदिग्ध प्रतीत हो रहे है । मुखबिर की सूचना के आधार पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताए गए स्थान पर पहुची तो पुलिस टीम को दो मोटरसाइकिलों पर 05 व्यक्ति आपस में बातचीत करते हुए दिखायी दिए जिन्हे पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध प्रतीत होने पर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 02 मोटरसाइकिल गिरफ्तार कर लिया गया था तथा उनकी तलाशी लेने पर व 01 तमंचा व 04 अवैध चाकू बरामद हुए ।

पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया कि हम लोग मिलकर मोटरसाइकिलो को जनपद के विभिन्न स्थानों से चुराते है तथा यह दोनो मोटरसाइकिल जिनमें से एक मोटरसाइकिल थाना कोतवाली क्षेत्र एवं थाना जसवंतनगर क्षेत्र से चोरी की गयी थी , तथा हमारे द्वारा अन्य स्थानों से चोरी की गयी 05 मोटरसाइकिल बीहड में छिपा रखी है जिन्हे पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों की निशानदेही पर बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग इन मोटरसाइकिलों की नम्बर प्लेट बदलकर ग्राहक मिलने पर सस्ते दामों पर बिक्री कर देते है ।

पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया कि दिनांक 18.03.2021 को हम लोगो द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्र से एक बुलेट मोटरसाइकिल चोरी की गयी थी जिसके संबंध में थाना कोतवाली पर मु0अ0स0 114/2021 धारा 379/411 भादवि अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

## गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अंकुश पुत्र अछेलाल निवासी कृपालपुर थाना बसरेहर जनपद इटावा ।
2. राहुल कुमार पुत्र राधेश्याम निवासी नगला खगी थाना अछल्दा जनपद औरैया ।
3. सुखबीर सिंह पुत्र बाबूराम निवासी नगला बाबा थाना वैदपुरा जनपद इटावा ।
4. आमिर खान पुत्र असलम खान निवासी मढैया शिवनारायण थाना कोतवाली जनपद इटावा ।
5. अयुब उर्फ बाबर पुत्र असलम खाना निवासी महतर टोला थाना कोतवाली जनपद इटावा ।

## पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 114/2021 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद इटावा ।
2. मु0अ0स0 117/2021 धारा 411,413,414,420, भादवि थाना कोतवाली जनपद इटावा ।
3. मु0अ0स0 118/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद इटावा ।
4. मु0अ0स0 119/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद इटावा ।
5. मु0अ0स0 120/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद इटावा ।
6. मु0अ0स0 121/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद इटावा ।
7. मु0अ0स0 122/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद इटावा ।

## बरामदगी-

1. 01 मोटरसाइकिल बुलट
2. 01 मोटरसाइकिल पैशन प्रो
3. 01 मोटरसाइकिल बजाज प्लैटिना
4. 01 मोटरसाइकिल यामाहा सुजुकी
5. 01 मोटरसाइकिल यामाहा क्रैक्स
6. 01 मोटरसाइकिल बजाज पल्सर
7. 01 मोटरसाइकिल हीरो स्प्लैण्डर

पुलिस टीम – श्री बचन सिंह सिरोह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली ,उ0नि0 श्री कपिल चौधरी ,उ0नि0 श्री सौरभ सिंह, उ0नि0 श्री सनत कुमार, उ0नि0 श्री प्रशान्त कुमार द्विवेदी,का0 प्रमोद कुमार,का0 पुष्पेन्द्र शर्मा,का0 दानिश

सोशल मीडिया सेल  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  
जनपद इटावा ।